

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-10072023-247144
SG-DL-E-10072023-247144असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 126
No. 210]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945	[N. C. T. D. No. 126

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जुलाई, 2023

क्रमांक CIS/Exemption(CIS-01)/Lab/2023/2366-2379.—दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 4 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्द्धन करता है।

उक्त अनुसूची में प्रतिष्ठान, इत्यादि शीर्षक में वर्तमान प्रविष्टि क्रम संख्या 278 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जायेगा, नाम से :-

279:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पता
1	ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	दुकान संख्या 26 और 27 (26ए) कृष्णा मार्केट, लाजपत नगर 1, नई दिल्ली -110024
2	इंटरग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	एसेट नंबर-9, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट

अधिनियम की धारा-14,15,16से निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- किसी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे (खाना व आराम के साथ) या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिये न रखा जायेगा और न अनुमति दी जायेगी। इसके अलावा कोई कर्मचारी एक बार में 5 घंटे से अधिक काम पर नहीं लगाया जायेगा। दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 की धारा 8 के अंतर्गत समयोपरि मजदूरी का भुगतान कर्मचारियों को सामान्य दर से दूगने दर पर किया जायेगा। नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बायोमेट्रिक मशीन के

		दिल्ली एरोसिटी-आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली-110037
3	ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नंबर 8, इलाहाबाद बैंक के पास, परमानंद कॉलोनी पॉकेट बी, द्वारका, सेक्टर -12, नई दिल्ली -110078
4	ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नंबर 8, इलाहाबाद बैंक के पास, परमानंद कॉलोनी पॉकेट बी, द्वारका, सेक्टर -12, नई दिल्ली -110078
5	ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नंबर 8, इलाहाबाद बैंक के पास, परमानंद कॉलोनी पॉकेट बी, द्वारका, सेक्टर -12, नई दिल्ली -110078
6	ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जेसी 38-39 खिड़की एक्सटेंशन मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017
7	नोबन अंकल परांठा	शॉप नंबर एफ 8, साउथ एक्सटेंशन पार्ट नई दिल्ली-110049
8	किरण कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	बेसमेंट, आर जेड-4 और 5, किला नंबर 25, असलतपुर गांव, इंद्रापार्क, न्यू पंखा रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059।
9	किरण कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	ग्राउंड फ्लोर, बी-1-12, बी-विंग, सोमदत्त चैंबर-1, 5 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
10	डंजो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नंबर 6, राजू एन्क्लेव, ओल्ड पालम रोड, ककरोला, द्वारका, नई दिल्ली -110078
11	डंजो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नंबर 1, खसरा नंबर 261, पश्चिमी मार्ग, साकेत, नई दिल्ली
12	डंजो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	34, रामकुमार मार्ग, झांसी रोड, पहाड़गंज

रिकार्ड्स दिल्ली दुकान एव संस्थापन अधिनियम 1954 और दिल्ली दुकान एव संस्थापन नियम 1954 के अंतर्गत इस तरह के रजिस्टर और रिकार्ड के संरक्षण के लिये कथित समय तक संरक्षित रहे ।

- यदि पारी मे कार्य चलता हो, तो इस प्रकार से होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पारी में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा ।
- नियोक्ता उन सभी कर्मचारियों की सुरक्षा और यातायात का उचित प्रबंध करेगा जिन्हें समयोपरि या दिल्ली दुकान एवं संस्थापन, 1954 के अंतर्गत विहित सामान्य कार्यावधि के बाहर पारी में काम करने को कहा गया है तथा नियोक्ता दुकान/संस्थान में वीडियोग्राफी के लिए सी.सी.टी.वी. स्थापित करेगा तथा उसे कम से कम 6 महीने के लिए संरक्षित रखेगा व मांगे जाने पर प्रमुख दुकान निरीक्षक के समक्ष पेश करेगा ।
- यदि किसी कर्मचारी से राष्ट्रीय अवकाश पर काम करवाया जाता है तो उसके लिए कर्मचारी को मुआवजा अवकाश व समयोपरि दोगुना वेतन का भुगतान किया जायेगा ।
- कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश बारी बारी से दिया जायेगा ।
- नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सभी कानूनी लाभ जैसे पी.एफ., ई.एस.आई., बोनस व छुट्टी प्रदान की जायेंगी ।
- कर्मचारियों को वेतन की अदायगी चैक या ई.सी.एस. के द्वारा की जायेगी ।
- इस छूट का किसी अन्य प्राधिकरण/ विभाग/सरकारी एजेंसियों जिसमें पुलिस भी शामिल है द्वारा जारी किसी अधिसूचना/आदेश/सलाह/परिपत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- इस अधिसूचना की प्रतिलिपि प्रतिष्ठान के कर्मचारी प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा ।

13	यूनीक्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	रिटेल स्पेस नं g01 F101 S201 एम्बियंस मॉल, प्लॉट नंबर 2 नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, एम्बियंस मॉल, नई दिल्ली- 110070
14	यूनीक्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	शॉप नंबर जी-12-18 और एफ-114-118, वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर-14 (उत्तर), द्वारका, नई दिल्ली- 110078
15	यूनीक्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	ग्राउंड मेजेनाइन और पहली मंजिल, हैमिल्टन हाउस, ए ब्लॉक, 1 ए, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001
16	सस्टेनेबल लक्ज़री ग्रेविटी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	50-बी, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, नीति मार्ग, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली- 110021
17	नोवन अंकल परांठा	शॉप नंबर एफ-8, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- 1, नई दिल्ली-110049
18	एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	यूनिट F-11, F-12, F- 13, और F-14b, पहली मंजिल, सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल, साकेत, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110017
19	श्रीविनायक सर्विसेस	29/1, स्पेंसर्स लेन, सिविल लाइंस, 1 और 2, खैबर पास, एमीप्रेस, सिविल लाइंस, दिल्ली- 110054

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. सी. यादव, अतिरिक्त सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th July, 2023

No. CIS/Exemption(CIS-01)/Lab/2023/2366-2379.—In exercise of powers conferred by the proviso to Section 4 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act 7 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following addition in the Schedule-1, appended to the said Act.

In the said Schedule under "Establishment etc." after the existing entry at serial no. 278 the following entry shall be added, namely:-

279:-

Sl. No.	Name of establishment	Address	From Section 14,15 and 16 of the Act, subject to the following conditions:-
1	Grofers India Private Limited	Shop No. 26&27 (26A) Krishna Market, Lajpat Nagar 1, New Delhi-110024	<p>(i) No employee shall be employed or allowed to work for more than nine hours (including that of meal and rest) on any day and for not more than forty Eight hours a week. Further, no employee shall be allowed to work for more than five hours at a stretch. Overtime wages shall be paid to eligible employees at double the normal rate as provided under section 8 of the Delhi Shops and Establishment Act, 1954. The employer shall ensure that the records of the Biometric machine if maintained shall be preserved for the duration mentioned for the similar register/record, in Delhi Shops and Establishment Act, 1954 and Rules made there under.</p> <p>(ii) Shift working, if any, shall be in such a way that no employee is forced to work in night shift only.</p> <p>(iii) Employer shall make suitable arrangement regarding safety, security and transportation of all the employees, who have been asked to work overtime or in the shift beyond the normal working hours as prescribed in the Delhi Shops and Establishments Act, 1954. Further the employer shall install ClosedCircuit Television (CCTV) for videography of the establishment and preserve the same for not less than a period of six months and submit the same on demand from the Chief Inspector of Shops.</p> <p>(iv) Employees working on national holidays shall be given compensatory leave in lieu thereof, and double rate of wages as overtime.</p> <p>(v) Weekly off day will be allowed to employees in rotation.</p> <p>(vi) The employer shall ensure that the workers are provided all the legal benefits under various labour laws like Minimum Wages, Provident Fund (PF), Employees' State Insurance (ESI), Bonus, Leave facility and the same be put on website of the shop/ establishment.</p> <p>(vii) Payment of wages of employees shall be made by cheque/Electronic Clearing Service (ECS).</p> <p>(viii) This grant of exemption shall have no overriding effect on any notification/</p>
2	Interglobe Hotels Private Limited	Assest No.-9, Hospitality District Delhi Aerocity-IGI Airport New Delhi-110037	
3	Grofers India Pvt Ltd	Plot No. 8, Near Allahabad Bank, Paramanand Colony Pocket B, Dwarka, Sector-12, New Delhi-110078	
4	Grofers India Pvt Ltd	Plot No. 8, Near Allahabad Bank, Parmanand Colony, Pocket B, Dwarka, Sector 12, Dwarka, New Delhi-110078	
5	Grofers India Pvt Ltd	Plot No. 8 Near Allahabad Bank, Parmanand Colony, Pocket B, Dwarka, Sector 12, Dwarka, New Delhi-110078	
6	Grofers India Pvt Ltd	JC 38-39 Khirki Extension Main Road, Malvia Nagar, New Delhi-110017	
7	No One Uncles Parantha	Shop No. F8, South Extension Part I New Delhi-110049	
8	Kiranakart Technologies Private Limited	Basement, RZ-4 & 5, Killa No. 25, AsalatPur Village, Indra Park, New Pankha Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059.	
9	Kiranakart Technologies Private Limited	Ground Floor, B-1-12, B-wing, SomDatt Chamber-1, 5 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066	
10	Dunzo Digital Private Limited	Plot No. 6, Raju Enclave, Old Palam Road, Kakrola, Dwarka, New Delhi-110078	
11	Dunzo Digital Private Limited	Plot No. 1, Khasra No. 261, Western Marg, Saket, New Delhi	
12	Dunzo Digital Private Limited	34, Ram Kumar Marg, Jhansi Road, Paharganj	
13	Uniqlo India Private Limited	Retail space no. g01 F101 S201 Ambience Mall, Plot No. 2 Nelson Mandela Marg, VasantKunj, Ambience Mall, New Delhi-110070	
14	Uniqlo India	Shop No. G-12-18 & F-	

	Private Limited	114-118, Vegas Mall, Plot No. 06, Sector-14(North), Dwarka, New Delhi-110078	<p>order/advisory/circular/ issued by any other Authority/ Department/ Government Agencies Including Police.</p> <p>(ix) A copy of this notification shall be prominently displayed at the employee's entrance/exit of the establishment.</p>
15	Uniqlo India Private Limited	Ground Mezzanine and First Floor, Hamilton House, A Block, 1 A, Connaught Place, New Delhi-110001	
16	DISCOVER Collection Club New Delhi	50-B, Diplomatic Enclave, NitiMarg, ChankakyaPuri, New Delhi- 110021	
17	No One Uncles Parantha	Shop No. F-8, South Extension Part-1, New Delhi-110049	
18	Apple India Private Limited	Units F-11, F-12, F-13, and F-14b, 1st Floor, Select Citywalk Mall, Saket, Saket District Centre, New Delhi-110017	
19	ShriVinayak Services	29/1, Spencers Lane, Civil Lines, 1 & 2, Khyber pass, Amy Press, Civil Lines, Delhi-110054	

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

S. C. YADAV, Addl. Secy. (Labour)